

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ नुसार सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व अधिनस्त कार्यालयातील “प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” यांची अद्ययावत यादी तयार करणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन शुद्धीपत्र क्रमांक: संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९-अ
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
तारीख : २२ एप्रिल २०१९

शासन शुद्धीपत्र :

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ मधील तरतुदीनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील “प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” यांची अद्ययावत यादी शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ, दिनांक १७ मार्च २०१८ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

२. आता विभागीय आयुक्त यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व सहायक आयुक्त (मावक) यांना “प्रादेशिक विभाग प्रमुख” व सह / उपसचिव (मावक), सामान्य प्रशासन विभाग यांना “विभाग प्रमुख” म्हणून खालील तक्त्यातील स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांक ८ एप्रिल २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयासमवेतच्या प्रपत्र-२ मधील विभाग प्रमुखांच्या यादीमध्ये अ.क्र.१४ नंतर खालील विभाग प्रमुखांचा समावेश करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	पदनाम	प्रशासकीय विभागाचे / कार्यालयाचे नांव	विभाग प्रमुख घोषित केल्याचा आदेश क्रमांक
१	२	३	४
१५	सह / उपसचिव (मागासवर्ग कक्ष). सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.	सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१६ब), मागासवर्ग कक्ष, मंत्रालय, मुंबई.	शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/१६ब, दिनांक ८ एप्रिल २०१९

३. तसेच दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयासमवेतच्या प्रपत्र-३ मधील प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांच्या यादीमध्ये अ.क्र.६ नंतर खालील प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांचा समावेश करण्यात यावा.

अ.क्र.	पदनाम	कार्यालयाचे नांव	प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख घोषित केल्याचा आदेश क्रमांक
१	२	३	४
७	सहायक आयुक्त, मागासवर्ग पुणे विभाग, पुणे.	विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधानभवन पुणे, पुणे विभाग मागासवर्ग कक्ष, पुणे.	शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ एप्रिल २०१९
	सहायक आयुक्त, मागासवर्ग कोकण विभाग, नवी मुंबई.	विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग मागासवर्ग कक्ष, नवी मुंबई.	शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ एप्रिल २०१९
	सहायक आयुक्त, मागासवर्ग नाशिक विभाग, नाशिक.	विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक रोड, नाशिक.	शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ एप्रिल २०१९
	सहायक आयुक्त, मागासवर्ग औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.	विभागीय आयुक्त कार्यालय, दिल्ली गेटजवळ, औरंगाबाद मागासवर्ग कक्ष, औरंगाबाद.	शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ एप्रिल २०१९
	सहायक आयुक्त, मागासवर्ग नागपूर विभाग, नागपूर.	विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर मागासवर्ग कक्ष, नागपूर.	शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ एप्रिल २०१९
	सहायक आयुक्त, मागासवर्ग अमरावती विभाग, अमरावती.	विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती कॅम्प, अमरावती मागासवर्ग कक्ष, अमरावती.	शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ एप्रिल २०१९

४. सदरहू शासन शुद्धीपत्र, संबंधित प्रशासकीय कार्यासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात यावी.

५. सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४२२१०३९४२७००७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रमोद तानाजी घोलप)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

१. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर.
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर.
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
७. सर्व कोषागार अधिकारी.
८. कक्ष अधिकारी (विनियम व व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
९. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१०. निवड नस्ती / कार्यासन-१९अ.